



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 21—मई 27, 2005 (वैशाख 31, 1927)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21—MAY 27, 2005 (VAISAKHA 31, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	509
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	489
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	709
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	535
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	249
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1497
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	139
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1— Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	509	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)— Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2— Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	489	PART II—SECTION 4— Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3— Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART III—SECTION 1— Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	535
PART I—SECTION 4— Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	709	PART III—SECTION 2— Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	249
PART II—SECTION 1— Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3— Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A— Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4— Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1497
PART II—SECTION 2— Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV— Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	139
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)— General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V— Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मई 2005

सं. 4(2)-पीयू/2005 लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 01 मई, 2005 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2006 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का विधिवत सदस्य निर्वाचित किया गया है :--

लोक सभा के सदस्य

1. श्री मनोरंजन भक्त
2. श्री गुरुदास दासगुप्त
3. श्री पी.एस. गढ़वी
4. श्री सुरेश कलमाडी
5. डा. वल्लभभाई कथीरिया
6. श्रीमती परनीत कौर
7. श्री सुशील कुमार मोदी
8. श्री रूपचन्द पाल
9. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल
10. श्री काशीराम राणा
11. श्री मोहन रावले
12. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
13. श्री बागुन सुम्बरूई
14. श्री पारसनाथ यादव
15. श्री रामकृपाल यादव

राज्य सभा के सदस्य

16. प्रो. रामदेव भंडारी
17. श्री अजय मारू
18. श्री प्यारीमोहन महापात्र
19. श्री जीवन राय
20. श्री शाहिद सिद्दीकी
21. श्रीमती अम्बिका सोनी
22. श्री दिनेश त्रिवेदी

माननीय अध्यक्ष ने श्री रूपचन्द पाल को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2005-2006) का सभापति नियुक्त किया है।

जे. पी. शर्मा, निदेशक

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मई 2005

संकल्प

सं. ई-11013/3/2002-हिंदी --राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा. (क-2) दिनांक 15.3.1988 तथा दिनांक 4.5.1989, कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/23/88-रा.भा. (क-2) दिनांक 29.6.1988 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/6/92-रा.भा. (क-2) दिनांक 10.6.1992 के अनुसार भारत सरकार एतद्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार करती है :--

गठन

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य :

लोकसभा से दो संसद सदस्य

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. श्री डी.आर. नायक | सदस्य |
| 2. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई | सदस्य |

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

- | | |
|---------------------------|-------|
| 3. श्री गिरीश कुमार सांघी | सदस्य |
| 4. श्री कलराज मिश्र | सदस्य |

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 5. श्री थावर चंद गेहलोत | सदस्य |
| 6. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद | सदस्य |

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्सवाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

- | | |
|--|-------|
| 7. श्री मोहन प्रकाश दुबे,
9/8, सेक्टर 1, पुष्प विहार,
नई दिल्ली-110 017. | सदस्य |
|--|-------|

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केन्द्र (दिल्ली नगर निगम),
10788-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 का प्रतिनिधि

- | | |
|--|-------|
| 8. श्री विभूति मिश्र,
प्रधान मंत्री
हिंदी साहित्य सम्मेलन,
12, सम्मेलन मार्ग,
इलाहाबाद-211000. | सदस्य |
|--|-------|

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

9. डॉ. (श्रीमती) बागेश्री चक्रधर, सदस्य
प्रोफेसर, शहीद भगत सिंह कालेज,
दिल्ली।

10. श्री हरेन्द्र सिंह समदर्शी सदस्य
यू-55-ए, शकरपुर,
दिल्ली-110067.

11. श्री कृष्ण दत्त शास्त्री, सदस्य
आर जेड-40/222, जे. ब्लॉक,
वेस्ट सागरपुर, नई दिल्ली-110046.

12. डॉ. शंभुनाथ सिंह, सदस्य
1329, सेक्टर 12,
आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110022.

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

13. डॉ. टी.आर. भट्ट, सदस्य
"प्रज्ञाश्री" छठा क्रॉस, कल्याण नगर,
धारवाड़ (कर्नाटक-580007)

14. डॉ. नजीर मोहम्मद, सदस्य
राहतकदा, डिग्गी रोड (निकट अब्दुला गर्ल्स कॉलेज),
अलीगढ़-202001

15. श्री नारायणराव शिंदे, सदस्य
नवी शुक्रवारी, दसरा रोड, वार्ड नं. 18,
नागपुर-440002.

सरकारी सदस्य

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

16. सचिव सदस्य

17. संयुक्त सचिव सदस्य

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

18. सचिव सदस्य

19. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रा.प्र.सर्व.सं.) सदस्य

20. अपर सचिव सदस्य

21. अपर महानिदेशक (राष्ट्रीय लेखा) सदस्य

22. अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) सदस्य

23. अपर महानिदेशक (क्षेत्र संकार्य प्रभाग, नई दिल्ली) सदस्य

24. संयुक्त सचिव (प्रशासन) सदस्य

25. उप महानिदेशक (संगणक केन्द्र, नई दिल्ली) सदस्य

26. संयुक्त सलाहकार (आ.सं. एवं प.प्र.) सदस्य

27. निदेशक (रा.प्र.स.सं.) सदस्य

28. निदेशक (प्रशासन) सदस्य

29. उप सचिव (वित्त) सदस्य

30. उप निदेशक (रा.भा.) सदस्य-सचिव

कार्यक्षेत्र

2. समिति का कार्य केन्द्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे में सलाह देना होगा।

कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अधधीन, सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :--

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

मुख्यालय

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी, 1987 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अरुण कुमार सक्सेना
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि तथा सहकारिता विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2005
संकल्प

सं. 11017/3/2004-एल एंड एम--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सहकारी शिक्षा समिति का दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा :--

अध्यक्ष

1. अध्यक्ष

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

नई दिल्ली

सदस्य

2. केन्द्रीय पंजीयक

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

भारत सरकार

3. वित्तीय सलाहकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

भारत सरकार

4. श्री एस.जी. पाटिल

निदेशक

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि.

निवास-राकविल्फ, द्वितीय तल

सामने-ओटर्स क्लब

बांद्रा (पश्चिम), मुम्बई-40050

5. श्री अजित कुमार सिंह

अध्यक्ष

नाफेड

नई दिल्ली

6. महानिदेशक

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

7. निदेशक

वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी

प्रबंधन संस्थान, पुणे

2. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लि. एक अलग खाते में इस कोष का रख-रखाव करेगा और ब्याज अथवा इस कोष में किए जाने वाले अंशदान से अर्जित आय को इसी कोष में जमा किया जाएगा।

3. इन नियमों के लागू होने के समय, बहुराज्यीय सहकारी समिति (विशेषाधिकार, सम्पत्ति एवं कोष, लेखा, लेखा-परीक्षा, परिसमापन और डिक्री आदेश और निर्णयों का निष्पादन) नियम 1985 के अंतर्गत गठित कोष में बची धनराशि के लिए यह माना जाएगा कि मानो यह कोष इन नियमों के ही अंतर्गत किया गया है।

4. सहकारी शिक्षा कोष का उपयोग सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण तथा सहकारिता के लिए मानव संसाधन के विकास के लिए किया जाएगा। समिति

का कार्य भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन सी यू आई) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास से संबंधित कार्यक्रमों को चलाए तथा सदस्यों और अन्य व्यावसायिक निकायों, समिति जैसा निर्णय ले, को अंशदान देना है।

5. समिति के अनुमोदन के बिना सहकारी शिक्षा कोष में से कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां संबंधित लोगों के पास भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

सतीश चन्द्र

संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2005

संकल्प

सं. 2-36/2003-हिन्दी नीति--कृषि एवं सहकारिता विभाग के संकल्प सं. 2-4/96-हिन्दी नीति दिनांक 2.8.2002 के अधिक्रमण में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है।

उक्त समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

अध्यक्ष

1. कृषि मंत्री

उपाध्यक्ष

2. कृषि राज्य मंत्री

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

सदस्य

3. श्री मुंशीराम

संसद सदस्य (लोक सभा)

4. श्री लाल चन्द्र

संसद सदस्य (लोक सभा)

5. श्री बी.के. हरीप्रसाद

संसद सदस्य (राज्य सभा)

6. श्री नारायण सिंह मानकलाओ

संसद सदस्य (राज्य सभा)

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

सदस्य

7. श्री सन्तोष गंगवार
संसद सदस्य (लोक सभा)

8. श्री अनिल बसु
संसद सदस्य (लोक सभा)

हिन्दी सेवी संगठनों एवं केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि
सदस्य

9. श्री कृष्णानन्द झा,
सचिव, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ,
हिन्दी विद्यापीठ,
वैद्यनाथधाम,
देवधर-814115 (झारखण्ड)

10. प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,
एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली

कृषि मंत्रालय, द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य
सदस्य

11. श्री रवीन्द्र कालिया,
सम्पादक 'वागर्थ', भारतीय भाषा परिषद,
36, ए. शेक्सपीयर सरणी,
कोलकाता-700 017

12. श्रीकांत रामअचल मिश्रा
5/56, शिव पार्वती बिल्डिंग,
हाजी कपू रोड, मलाड
मुम्बई-400 097

13. श्री सुरेन्द्र कांकरिया,
जीवन ज्योति मेडिकल स्टोर्स,
जवाहर मार्ग, थान्दला
जिला-झाबुआ, म.प्र.

14. श्री रामगोपाल शर्मा,
समन्वय सम्पादक, दैनिक भास्कर,
एफ-110/39, शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य
सदस्य

15. डॉ. बि. रामसंजीवय्या,
139, बी.ए. मेन रोड, गोकुला (मतीकरे),
प्रथम फेज, प्रथम स्टेज, बैंगलूर-54

16. श्रीमती बी.एस. शांताबाई,
कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति,
178, IV मेन रोड, चामराजपेट,
बैंगलूर-560 018

17. श्री रणजित फत्तेसिंह चव्हाण,
31, नार्थ शिवाजी नगर,
कांग्रेस हाऊस के निकट
सांगली, जि. सांगली-416 416
महाराष्ट्र

सरकारी सदस्य

सदस्य

18. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग

19. सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

20. सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग

21. सचिव, राजभाषा विभाग

22. अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग

23. अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग

24. अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग

25. अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग

26. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता
विभाग

27. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग

28. बागवानी आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग

29. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

30. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग

31. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

32. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली

33. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली

34. प्रबंध निदेशक, भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली

सदस्य-सचिव

35. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि एवं सहकारिता विभाग

समिति के कार्य

इस समिति का काम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीति के कार्यान्वयन और कृषि मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है।

गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता :

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा.(क2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

कार्यकाल :

आदेश

समिति का कार्यकाल सामान्यतः उसके गठन की तिथि से तीन वर्ष तक होगा बशर्ते कि:-

(क) जो सदस्य संसद सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे, जब तक कि वे उन पदों पर आरुढ़ रहेंगे जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई रिक्ति होती है तो इस रिक्ति पर नियुक्त होने वाला सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी, कृषि मंत्रालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी. के. जलाली
संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi - 110 001, the 2nd May 2005

No. 4(2)-PU/2005.—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been duly elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on 1st May, 2005 and ending on 30th April, 2006 :—

MEMBERS OF LOK SABHA

1. Shri Manoranjan Bhakta
2. Shri Gurudas Dasgupta
3. Shri P.S. Gadhave
4. Shri Suresh Kalmadi
5. Dr. Vallabhabhai Kathiria
6. Smt. Preneet Kaur
7. Shri Sushil Kumar Modi
8. Shri Rupchand Pal
9. Shri Shriniwas Patil
10. Shri Kashiram Rana
11. Shri Mohan Rawale
12. Shri Rajiv Ranjan 'Lalan' Singh
13. Shri Bagun Sumbrui
14. Shri Parasnath Yadav
15. Shri Ram Kripal Yadav

MEMBERS OF RAJYA SABHA

16. Prof. Ram Deo Bhandary
17. Shri Ajay Maroo
18. Shri Pyarimohan Mohapatra
19. Shri Jibon Roy
20. Shri Shahid Siddiqui
21. Smt. Ambika Soni
22. Shri Dinesh Trivedi

The Hon'ble Speaker has been pleased to appoint Shri Rupchand Pal as Chairman of the Committee (2005-2006).

J.P. SHARMA
Director

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 5th May 2005

RESOLUTION

No. E-11013/3/2002-Hindi.—According to Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-OL(A-2) dated 15.3.1988 and 4.5.1989, O.M. No. II/20015/23/88-OL(A-2) and O.M. No. II/20015/6/92-OL(A-2) dated 10.6.1992 Government of India hereby constitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Statistics and Programme Implementation as under :

COMPOSITION

MINISTER OF STATE FOR STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (INDEPENDENT CHARGE) Chairman

Non Official Members:

Two MPs from Lok Sabha

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. Shri D.R. Nayak | Member |
| 2. Jaswant Singh Bisnoi | Member |

Two MPs from Rajya Sabha

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 3. Shri Girish Kumar Sanghi | Member |
| 4. Shri Kalraj Mishra | Member |

Two MPs from the Committee of Parliament on
Official Language

5. Shri Thaver Chand Gehlot Member
6. Shri Mahendra Prasad Nishad Member

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi
Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi

7. Shri Mohan Prakash Dubey, Member
9/8, Sector 1, Pushpa Vihar,
New Delhi-110017.

Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha
Sangh, Community Centre (Municipal Corporation of
Delhi) 10788-89, Jhandewalan Road, Nabi Karim,
New Delhi-110055

8. Shri Vibhuti Mishra, Member
General Secretary,
Hindi Sahitya Sammelan,
13, Sammelan Marg,
Allahabad-211000.

Non-Official Members nominated by the Ministry of
Statistics and Programme Implementation

9. Dr. (Smt.) Bageshri Chakradhar, Member
Professor - Shaheed Bhagat Singh
College, Delhi.
10. Shri Harendra Singh Samdarshi, Member
U-55A, Sakarpur,
Delhi.
11. Shri Krishna Dutt Shastri, Member
RZ 40/222, J-Block, West Sagarpur,
New Delhi-110046.
12. Dr. Shambhunath Singh, Member
1329, Sector 12,
R.K. Puram,
New Delhi-110022.

Non-Official Members Nominate by the Ministry of
Home Affairs (Department of Official Language)

13. Dr. T.R. Bhatt, Member
"Pragaya Shree". Vith Cross,
Kalyan Nagar, Dharwad,
Karnataka-580007
14. Dr. Nazir Mohammad, Member
Rahatkada, Diggi Road,
(Near Abdullah Girls' College),
Aligadh-202001.
15. Sh. Narayan Rao Shinde, Member
Navi Shukrawari, Dasra Road,
Ward No. 18, Nagpur-440002.

Official Members

Department of Official Language (Ministry of Home
Affairs)

16. Secretary Member
17. Joint Secretary Member

Ministry of Statistics and Programme Implementation

18. Secretary Member
19. DG & CEO (NSSO) Member
20. Additional Secretary Member
21. Additional Director General Member
(National Accounts)
22. Additional Director General (Training) Member
23. Additional Director General Member
(FOD, New Delhi)
24. Joint Secretary (Admn.) Member
25. Deputy Director General Member
(Computer Centre, New Delhi)
26. Joint Adviser (IPMD) Member
27. Director (NSSO) Member
28. Director (Admn.) Member
29. Deputy Secretary (Finance) Member
30. Deputy Director (O.L.) Member-Secretary

FUNCTIONS

2. The function of the Samiti will be to render advise
for the implementation of the policies laid down by
Kendriya Hindi Samiti and Department of Official
Language regarding the use of Hindi for official purposes
in the Ministry of Statistics and Programme
Implementation.

TENURE

3. The tenure of the Samiti will be normally three years
from the date of its composition subject to the following:
(a) a member, who is Member of Parliament, will cease
to be a member of the Samiti as soon as he ceases
to be a Member of Parliament;
(b) ex-officio member of the Samiti shall continue as
members so long as they hold the office by virtue of
which they are members of the Samiti;
(c) a member nominated in a vacancy arising in the
Samiti due to the death or resignation of any member
shall hold office for the residual term.

Headquarters

4. The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

Travelling and other allowances

5. The non-official members will be paid travelling and
daily allowances for attending the meetings of the Samiti
at the rates fixed by the Government of India from time
to time and as per instructions contained in the

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Office Memorandum NO. II/20034/4/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987.

Order

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all State Governments, Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and All Ministries/Departments of Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A.K. SAXENA
Joint Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 10th March 2005

RESOLUTION

F. No. R-11017/3/2004-L&M.—With the approval of the competent authority, it has been decided to reconstitute the Cooperative Education Fund Committee for a period of two years. The Composition of the Committee will be as follows :

Chairperson

- (i) President
National Cooperative Union of India
New Delhi.

Members

- (ii) The Central Registrar
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation
Government of India
- (iii) Financial Advisor
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation
Government of India
- (iv) Shri S.G. Patil
Director
National Federation of Cooperative Sugar Industries Ltd., New Delhi
R/o: Rock Cliff, 2nd Floor, Opp. Otters Club,
Bandra (West), Mumbai-400050
- (v) Shri Ajit Kumar Singh,
Chairman,
NAFED
New Delhi

2—71GI/2005

- (vi) Director General
National Council for Cooperative Training
- (vii) Director
Vaikunth Mehta National Institute of
Cooperative Management, Pune.

2. The National Cooperative Union of India Limited shall maintain this fund in a separate account and all income by way of interest or otherwise accruing from contribution towards this fund shall be credited to this fund.

3. The balance in the fund, constituted under rule 4 of the Multi State Cooperative Societies (Privileges, properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985, at the commencement of these rules shall be construed the fund as if constituted under these rules.

4. The Cooperative Education Fund shall be utilized for the purposes connected with the cooperative education and training and human resource development for cooperatives. The Committee may undertake the programmes of cooperative education and training and human resource development, through National Cooperative Union of India, National Council for Cooperative Training, contribution to members or any other professionally qualified body as the Committee may decide.

5. No expenditure out of the cooperative education fund shall be incurred without the approval of the Committee.

ORDER

Ordered that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SATISH CHANDER
Joint Secretary

New Delhi, the 6th May 2005

RESOLUTION

No. 2-36/2003-Hindi Neeti.—In supersession of the Department of Agriculture & Cooperation, Resolution No. 2-4/96-Hindi Neeti dated 2.8.2002, it has been decided to reconstitute the Joint Hindi Salahakar Samiti of the Department of Agriculture and Cooperation, Department of Agricultural Research and Education, Department of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries.

The composition of the Samiti will be as follows :

Chairman

1. Union Minister of Agriculture

Vice-Chairman

2. Minister of State for Agriculture

Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

Members

3. Shri Munshiram
Member of Parliament (Lok Sabha)
4. Shri Lalchandra
Member of Parliament (Lok Sabha)
5. Shri B.K. Hariprasad
Member of Parliament (Rajya Sabha)
6. Shri Narayan Singh Manaklao
Member of Parliament (Rajya Sabha)

Members of Parliament nominated by the Committee of Parliament on Official Language

Members

7. Shri Santosh Gangwar
Member of Parliament (Lok Sabha)
8. Shri Anil Basu
Member of Parliament (Lok Sabha)

Representatives of Voluntary Hindi Organisation and Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

Members

9. Shri Krishnanand Jha
Secretary, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh,
Hindi Vidyapeeth, Vaidyanathdham
Deoghar-814115 (Jharkhand)
10. Chairman,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi

Non-Official Members nominated by the Ministry of Agriculture

Members

11. Shri Ravindra Kalia
Editor - "Vagarth", Bhartiya Bhasha Parishad,
36-A, Shakespeare Sarni,
Kolkata-700017
12. Shri Shrikant Ramachal Mishra
5/56, Shiv Parvati Building
Haji Bapu Road, Malad,
Mumbai-400097

13. Shri Surendra Kankaria
Jeevan Jyoti Medical Stores,
Jawahar Marg, Thandla
District - Jhabua, M.P.

14. Shri Ramgopal Sharma
Coordinating Editor, Dainik Bhaskar
F-110/39, Shivaji Nagar
Bhopal (M.P.)

Non-Official Members nominated by the Department of Official language, Ministry of Home Affairs

Members

15. Dr. B. Ram Sanjivayya
139, B.A. Main Road, Gokula (Matikare)
First Phase, First Stage
Bangalore-54
16. Smt. B.S. Shantabai
Karnataka Mahila Hindi Sewa Samiti
178, IV Main Road, Chamrajpet
Bangalore-560018
17. Shri Ranjit Fatte Singh Chavan
31, North Shivaji Nagar
Near Congress House, Sangli
District - Sangli-416416 (Maharashtra)

Official Members

Members

18. Secretary
Department of Agriculture & Cooperation
19. Secretary
Department of Agricultural Research & Education
20. Secretary
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
21. Secretary
Department of Official Language
22. Additional Secretary
Department of Agriculture & Cooperation
23. Additional Secretary
Department of Agriculture & Cooperation
24. Additional Secretary
Department of Agriculture & Cooperation
25. Additional Secretary
Department of Agriculture & Cooperation
26. Additional Secretary & Financial Adviser
Department of Agriculture & Cooperation
27. Agriculture Commissioner
Department of Agriculture & Cooperation

28. Horticulture Commissioner,
Department of Agriculture & Cooperation
29. Joint Secretary (Admn.)
Department of Agricultural Research & Education
30. Joint Secretary (Admn.)
Department of Animal Husbandry, Dairying &
• Fisheries
31. Joint Secretary
Department of Official Language
32. Managing Director
National Cooperative Development Corporation,
New Delhi
33. Managing Director
National Seeds Corporation of India, New Delhi
34. Managing Director
State Farms Corporation of India, New Delhi

Member Secretary

35. Joint Secretary (Admn.)
Department of Agriculture & Cooperation

Functions of the Samiti :

The function of the Samiti is to render advice in regard to the implementation of policies laid down by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs relating to the use of Hindi for Official purposes and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Agriculture.

TA & DA to Non-Official members :

The Non-Official Members of the Samiti shall be paid Travelling Allowance & Daily Allowance in accordance with the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. 11/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22.1.1987 and at the rates prescribed

by the Government of India under the rules and as amended from time to time.

Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that :—

(a) a member who is a Member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed against that vacancy shall hold office for the residual term out of three year.

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Union Public Service Commission, Principal Pay & Accounts Office, Ministry of Agriculture, all Attached & subordinate offices and Public Sector Undertakings etc. of the Ministry of Agriculture and all Ministries & Departments of Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

P.K. JALALI
Joint Secretary